



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1939 (श10)
(सं0 पटना 921) पटना, मंगलवार, 10 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

10 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 202, दिनांक 10 अक्टूबर 2017—बिहार गजट के असाधारण अंक, संख्या पटना 782, दिनांक 1 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित बिहार सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 139 दिनांक 1 सितम्बर, 2017 के हिन्दी पाठ का शुद्धि पत्र।

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	पंक्ति सं.	के स्थान पर	पढ़ें
1.	2	14	परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा	परिवहनकर्ता द्वारा
2.	2	25	अगो	आगे
3.	3	7	किया जाएगा	किया जाए
4.	3	26	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है
5.	“प्ररूप जीएसटी आईएनवी-1”, शब्द जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर “प्ररूप जीएसटी आईएनवी-1” पढ़ें।			
6.	14	16	पहचान प्रवाचक	पहचान युक्ति प्रवाचक

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	पंक्ति सं.	के स्थान पर	पढ़ें
7.	14	16	ज्ञानों	यानों
8.	14	32	दोबार	दोबारा

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3691)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 921-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>